

प्रेस नोट दिनांक-10.06.2021

(1). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 4420 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनांक 09/06/2021 को समय 13:40 बजे इवेंट संख्या 8514 द्वारा घटनास्थल बिलारी रामपुर थाना रैपुरा से कॉलर शिरोमणि द्वारा सूचना दी गयी कि बाइक का एक्सीडेंट हो गया है दोनों गाड़ी मौजूद है।

कृत कार्यवाही:- इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि दो मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई है जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल है और दो लोगो को हल्की चोट आई है। पीआरवी कर्मियों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य रामनगर में भर्ती कराया गया है। घायलों के परिजन भी मौके पर आ गये है।

पीआरवी स्टाफ:-

कमांडर - आरक्षी अरविंद द्विवेदी

पायलट - हो0गा0 अर्जुन प्रसाद

(2). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 4423 थाना पहाड़ी अंतर्गत दिनांक 10/06/2021 को समय 01:52 बजे इवेंट संख्या 0770 द्वारा घटनास्थल पहाड़ी से 1 km ममुलिया पेट्रोल पंप थाना पहाड़ी से कॉलर सोनू कोटार्य द्वारा सूचना दी गयी कि पिता जी को अस्पताल ले जाते समय गाड़ी पंचर हो गई है।

कृत कार्यवाही:- इस सूचना पर पीआरवी 4423 तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को कॉलर ने बताया कि मैं प्रसिद्धपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिता जी कि तबियत बहुत ज्यादा खराब है मैं अपने पिता जी के लिये दवा लेने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी जा रहा था तो ममुलिया पेट्रोल पंप के पास मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। रात्रि लगभग 02 बजे का समय होने के कारण कॉलर सोनू बहुत घबराया हुआ था पीआरवी कर्मियों ने कॉलर को समझाया और कॉलर की हिम्मत बढ़ाई और पानी पिलाया। रात्रि का समय होने के कारण पंचर बनाने की दुकान बंद है। पीआरवी कर्मियों ने कॉलर की मोटरसाइकिल को पेट्रोल पंप में खड़ी करा दी और कॉलर सोनू को अपने साथ ले जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से दवा दिलवा कर सकुशल उसके गांव प्रसिद्धपुर पहुंचाया गया। जिससे कॉलर के पिता जी को समय से दवा मिल गई। कॉलर ने पीआरवी कर्मियों की भूरी भूरी प्रसंसा और सराहना की।

पीआरवी स्टाफ:-

कमांडर - आरक्षी रामकिशन प्रजापति

पायलट - हो0गा0 उदयभान

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 130/21 धारा 41/411/413/141/419/420/467/468/471 भादवि0 वांछित अभियुक्त नीलू यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी चिल्लीमल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी रामजी शरण

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 183/20 धारा 504/506/507 भादवि व 11(2) पोक्सो एक्ट 67 आईटी एक्ट के वांछित अभियुक्त अखिलेश पुत्र मईयादीन रैकवार निवासी खोर थाना धरमपुर तहसील अजयगढ़ जनपद पन्ना म0प्र0 को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी

2. आरक्षी मनीष कुमार
3. आरक्षी पवन कुमार

(5). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 10.06.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन बरगढ़ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा आर्यावर्त बैंक कस्बा मारकुण्डी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम भारतपुर और भरतकूप मंदिर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा कर्वी क्षेत्र के पुरानी कोतवाली चौराहा, धुस मैदान, भैरोपागा में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम बांधी में, , एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अबरार पुत्र रउफ निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 15 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका मस्तीहू नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 37/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी करने वाली टीम:-

- (1) उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़
- (2) रि0 आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा
- (3) महिला आरक्षी निधि सेंगर